



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 121-2023/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JULY 11, 2023 (ASADHA 20, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

शहरी स्थानीय निकाय विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 जुलाई, 2023

संख्या 09/14/2023-4क II.— हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9/14/2023-4 क II दिनांक 05 अप्रैल 2023 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट सफेदार नगर के क्षेत्र को नगर परिषद्, पटौदी मण्डी, जिला गुरुग्राम की सीमाओं में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:—

सीमाओं की अनुसूची

नगर परिषद् पटौदी-मण्डी की सीमाओं की अनुसूची को ड्राईंग संख्या 0248/एम०सी०पी०एम० दिनांक 21.11.2022 से संलग्न प्रति में चिह्नित बिन्दु 'ए' से बिन्दु 'आर' तक दर्शाई गई सीमाओं के साथ पढ़ा जायेगा।

उत्तर:—बिन्दु 'ए' जो कि नगर पालिका समिति, हेलीमण्डी, (राजस्व संपदा जटौली) ग्राम लोहारी (जिला—झज्जर) तथा फरीदपुर का त्रि-मिलन है, से आरम्भ करके पूर्व की तरफ नगरपालिका समिति, हेलीमण्डी की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम फरीदपुर, महचाना व खण्डेवला की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि नगरपालिका समिति, हेलीमण्डी, ग्राम खण्डेवला तथा रामपुर की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है। इसके उपरान्त बिन्दु 'बी' से पूर्व दक्षिण की तरफ ग्राम रामपुर की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम खण्डेवला, जाटौला तथा जोड़ी की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि ग्राम रामपुर, जोड़ी तथा जनौला की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है। इसके उपरान्त बिन्दु 'सी' से पूर्व की तरफ ग्राम जनौला की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम जोड़ी तथा घोषगढ़ की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि ग्राम जनौला, घोषगढ़ तथा नरहेडा की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है। इसके उपरान्त बिन्दु 'डी' से पूर्व की तरफ ग्राम नरहेडा की उत्तरी सीमा के साथ तथा ग्राम घोषगढ़ तथा नरहेडा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि ग्राम नरहेडा, घोषगढ़ तथा भौडा कला की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।

पूर्व:—बिन्दु 'ई' से दक्षिण की तरफ ग्राम नरहेडा की पूर्व सीमा के साथ तथा ग्राम भौडा कला व ऊँचा माजरा की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'एफ' तक जो कि ग्राम नरहेडा, ऊँचा माजरा तथा बांस पदम्का की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है। इसके उपरान्त बिन्दु 'एफ' से पश्चिम की तरफ ग्राम नरहेडा की दक्षिण सीमा के साथ तथा ग्राम बांस पदम्का तथा बिड खुर्द की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'जी' तक जो कि ग्राम नरहेडा, बिड खुर्द तथा नगरपालिका समिति, पटौदी की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है। इसके उपरान्त बिन्दु 'जी' से दक्षिण की तरफ नगरपालिका समिति, पटौदी की पूर्व सीमा के साथ तथा ग्राम बिड खुर्द तथा बांस पदम्का की संयुक्त राजस्व सीमाओं के साथ—साथ बिन्दु 'एच' तक जो कि नगरपालिका समिति, पटौदी, ग्राम बांस पदम्का तथा मुमताजपुर की राजस्व सीमाओं का त्रि-मिलन है।

दक्षिणः—बिन्दु 'एच' से पश्चिम की ओर बिन्दु 'आई' तक जोकि ग्राम मुस्ताजपुर, सफेदार नगर तथा नगरपालिका समिति पटौदी की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'आई' से 'जे' तक जोकि ग्राम सफेदार नगर, मुस्ताजपुर तथा हेडाहेडी की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'जे' से दक्षिण पश्चिम की ओर बिन्दु 'के' तक जोकि ग्राम हेडाहेडी, हासंका तथा खानपुर की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'के' से दक्षिण की तरफ बिन्दु 'एल' तक जोकि ग्राम नानूकलां तथा खानपुर की राजस्व सीमाओं का द्विमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'एल' से पश्चिम उत्तर की तरफ बिन्दु 'एम' तक जोकि ग्राम खानपुर, खोड तथा हेडाहेडी की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है।

पश्चिमः—बिन्दु 'एम' से बिन्दु 'एन' तक जोकि नगरपालिका समिति, पटौदी, ग्राम हेडाहेडी तथा खोड की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'एन' से नगरपालिका समिति पटौदी की दक्षिण पश्चिम सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ओ' तक जोकि नगरपालिका समिति, पटौदी ग्राम, छावन तथा खोड की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'ओ' से बिन्दु 'पी' तक जोकि ग्राम मिलकपुर, छावन तथा रंसिका की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'पी' से उत्तर की तरफ बिन्दु 'क्यू' तक जोकि नगरपालिका समिति, हेलीमण्डी, ग्राम मिलकपुर तथा शाहपुर जट, की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'क्यू' से उत्तर की तरफ नगरपालिका समिति हेलीमण्डी (राजस्व संपदा जटौली) की पश्चिम सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'आर' तक जोकि नगरपालिका समिति हेलीमण्डी ग्राम राजपुरा तथा लोहारी (जिला-झज्जर) की राजस्व सीमाओं का त्रिमिलन बिन्दु है। इसके उपरान्त बिन्दु 'आर' से उत्तर की तरफ नगरपालिका समिति, हेलीमण्डी की पश्चिम सीमा के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

विकास गुप्ता,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT

Notification

The 11th July, 2023

No. 09/14/2023-4CII.— In exercise of the powers conferred under sub section (3) of section 4 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, notification No. 9/14/2023-4CII] dated the 5th April, 2023, the Governor of Haryana hereby includes the area of safedar Nagar within the limits of Municipal Council, Pataudi Mandi, District Gurugram as specified in the schedule given below, namely:-

Schedule of Boundaries

Schedule of Boundaries for Municipal Council, Pataudi-Mandi shall be read with the boundaries shown under point A to R marked on the attached drawing bearing No. 0248/ MCPM Dated 21.11.2022.

North:- Starting from point 'A' which is the tri-junction of the revenue boundaries of Municipal Committee Hailymandi (Revenue Estate Jatauli), village Lohari (Distt. Jhajjar) and Faridpur and moving towards East along the northern boundary of the Municipal Committee Hailymandi and the common revenue boundaries of village Faridpur, Mehchana and Khandewala up to point 'B' which is the tri-junction of the revenue boundaries of the Municipal Committee Hailymandi, village Khandewala and Rampur. Thence from point 'B' towards east-south, along the northern boundary of village Rampur and the common revenue boundaries of village Khandewala, Jataula and Jori up to point 'C' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Rampur, Jori and Janaula. Thence from point 'C' towards the east, along the northern boundary of village Janaula, and the common revenue boundaries of village Jori and Ghoshgarh, up to point 'D' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Janaula, Ghoshgarh and Narhera. Thence from point 'D' towards the east, along with the northern boundary of village Narhera, and the common revenue boundaries of village Ghoshgarh and Narhera, up to point 'E', which is the tri-junction of the revenue boundaries of villages Narhera, Ghoshgarh and Bhora Kalan.

East:- Starting From point 'E' and moving towards the south, along the eastern boundary of village Narhera and the common revenue boundary of village Bhora Kalan and Uncha Majra up to point 'F' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Narhera, Uncha-Majra and Bas Padmaka. Thence from point 'F' towards the west along the southern boundary of village Narhera and the common revenue boundaries of village Bas Padmaka and Bid Khurd up to point 'G' which is the tri-junction of revenue boundaries of village Narhera, Bid Khurd and Municipal Committee Pataudi. Thence from point 'G' towards the south, along with the eastern boundary of the Municipal Committee Pataudi and the common revenue boundaries of village Bid Khurd and Bas Padamka, up to to point 'H' which is the tri-junction of the revenue boundaries of the Municipal Committee Pataudi, village Baspadamka and Mumtazpur.

South:- From point 'H' towards west up to point 'I' which is the tri-junction of revenue boundary of village Mumtazpur, Safedaar Nagar and MC Pataudi. Thence from point 'I' up to point 'J' which is the tri-junction of revenue boundary of village Safedaar Nagar, Mumtazpur and Hera heri. Thence from point 'J' towards south west up to point 'K' which is the tri-junction of revenue boundary of village Hera heri, Hansaka and Khanpur. Thence from point 'K' towards south up to point 'L' which is the tri-junction of revenue boundary of village Nanu kalan and Khanpur. Thence from point 'L' towards west north up to point 'M' which is the tri-junction of revenue boundary of village Khanpur, Khor and Hera heri.

West:- From Point 'M' up to point 'N' which is the tri-junction of revenue boundary of MC Pataudi, Village Hera Heri and Khor. Thence from point 'N' along the south west boundary of MC Pataudi up to point 'O' which is the tri-junction of revenue boundary of MC Pataudi, Village Chawan and Khor. Thence from Point 'O' up to point 'P' which is the tri-junction of revenue boundary of village Milakpur, Chawan and Ransika. Thence from point 'P' towards north up to point 'Q' which is the tri-junction of revenue boundary of MC Hailymandi, village Milakpur and Shahpur Jat. Thence from point 'Q' towards north along the west boundary of MC Haily Mandi (Revenue Estate Jatauli) up to point 'R' which is the tri-junction of revenue boundary of MC Haily Mandi, village Rajpura, Lohari (Distt. Jhajjar). Thence from point 'R' towards north along the west boundary of MC Haily Mandi up to point 'A' which is the starting point.

VIKAS GUPTA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Urban Local Bodies Department.

